

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 28.07.2022

दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कंधई)

जनपद के थाना कंधई के उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 342/2022 धारा 304बी, 323, 498ए भादंवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित दो वांछित अभियुक्त 01. अरविन्द कुमार बहेलिया पुत्र रामकुमार बहेलिया 02. रामकुमार बहेलिया पुत्र स्व0 शिवशंकर बहेलिया निवासीगण ताला थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)

जनपद के थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 210/2022 धारा 323, 504, 506, 324, 307, 308 भादंवि से संबंधित एक वांछित अभियुक्त अमन सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी सदर मोड़ पुरानी आबकारी थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के सदर मोड़, पुरानी आबकारी के पास से गिरफ्तार किया गया।

04 अदद अवैध देसी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)

जनपद के थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भंगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक व्यक्ति सद्दाम पुत्र स्व0 अब्दुल अजीज निवासी जेल रोड कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को 04 अदद अवैध देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 /2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

जनपद के थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री सीताराम यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 196/2022 धारा 323, 504, 506, 308 भादंवि से संबंधित तीन वांछित अभियुक्त 01. अकरम पुत्र अकबालुद्दीन 02. खुर्शीद आलम पुत्र अकबालुद्दीन 03. मो0 शोएब पुत्र मो0 शब्बीर निवासीगण हैदरपुर थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र जेठवारा के घीसा का पुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अंतू)

जनपद के थाना अंतू के उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान धारा 82/83 सीआरपीसी व थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 260/99 धारा 323, 504, 506, 336 भादंवि से संबंधित एक वारण्टी अभियुक्त **रामचन्द्र पाण्डेय पुत्र जयमंगल निवासी चौरा थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़** को थाना क्षेत्र के गढ़वारा बाजार से गिरफ्तार किया गया व उ0नि0 श्री कमलेश कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान धारा 82/83 सीआरपीसी व थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 174/92 धारा 326 भादंवि से संबंधित एक वारण्टी अभियुक्त **बसंत कुमार पुत्र रामअभिलाख निवासी कपासी थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।